

Ref. No.: AAL/BSE/NSE/2020-21

Date: 20th January, 2021

То,

The Manager	The Secretary
Listing Department	The National Stock Exchange of India Limited,
The BSE Limited	"Exchange Plaza",
Phiroze Jee Jee Bhoy Towers,	5th Floor, Plot No. C/1, G-Block, Bandra – Kurla
Dalal Street, Mumbai – 400001	Complex, Bandra (E), Mumbai-400051
Scrip code: 520077	Symbol: AMTEKAUTO

<u>Subject:</u> - <u>Submission of Newspaper cutting pertaining to publication of Audited Financial Results</u> (Standalone) for the Quarter and Year ended on 31st March, 2020.

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements), Regulations, 2015, please find enclosed newspaper cuttings pertaining to publication of Audited Financial Results (Standalone) for the for the Quarter and Year ended on 31st March, 2020 published in the newspapers namely 'Financial Express' (English Newspaper) and 'Jansatta' (Hindi Newspaper) on 17th January, 2021

You are requested to take the same on records.

AMTE

Thanking You, Yours faithfully,

en

For Amtek Auto Limited (A Company under Corporate Insolvency Resolution Process)

Rajeev Raj Kumar Company Secretary Issued with Approval of Mr. Dinkar Tiruvannadapuram Venkatasubramanian (Insolvency Professional) IP Registration no. IBBI/IPA-001/IP-P00003/2016-17/10011

(Amtek Auto Limited is under Corporate Insolvency Resolution Process of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. Its affairs, business and assets are being managed by the Resolution Professional, Mr. Dinkar T. Venkatasubramanian, appointed as Interim Resolution Professional (IRP) by the National Company Law Tribunal, Chandigarh Bench order dated 27th July, 2017 and continued as Resolution Professional by the Committee of Creditors in its meeting held on 22nd August 2017 under the provisions of the Code. Mr. Dinkar T. Venkatasubramanian appointed as Insolvency Professional as per the Resolution Plan approved by Hon'ble National Company Law Tribunal by order dated 09th July, 2020 under the directions of Implementation and Monitoring Committee of the Corporate Debtor.)



Amtek Auto Limited 2077 3, L.S.C., Pamposh Enclave, Greater Kailash-I, New Delhi - 110 048 Phone: +91 11 4234444, Fax: +91 11 4234400 E-mail: info@amtek.com, Website: www.amtek.com CIN : L27230HR1988PLC030333

Regd. Office: 16, Industrial Estate, Rozka Meo, Sohna, Distt, Gurgaon (Haryana) 122 103 India Phone: +91-124-2362456, 2362140, Fax. +91-124-2362454 E-mail: aal.soh@amtek.com, Website: www.amtek.com

13

FE SUNDAY

यूजियन तेक 🕥 Union Bank Union Bank of India(E-ANDHRA BANK) मॉयल MOIL (A Govt. of India Undertaking) GREEN PARK (NEW DELHI) A-13 GREEN PARK (MAIN) AUROBINDO MARG GREEN PARK BRANCH:110016 Tel No.01126569005/26536993 POSSESSION NOTICE {RULE 8(1) OF SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES 2002} (For immovable property) WHEREAS The undersigned being the Authorized Officer of erstwhile Andhra Bank, now Union Bank of India under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) of the Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice dated 16.06.2020 calling upon the borrower M/S Bharat Vikas Export pvt Ltd to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 2,34,59,720.24 (Rupees Two Crores thirty four Lakh fifty nine thousand seven hundred twenty and twenty four paisa) as on 31-05-2020 with subsequent interest as per the agreement(s) within 60 days from the date of receipt of the said notice. The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred under Section 13 (4) of the said Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this the 15 day of January 2021. The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Union Bank of India for an amount Rs. 2, 34, 59,720.24 (Rupees Two Crores thirty four Lakh fifty nine thousand seven hundred twenty and twenty four paisa) as on 31-05-2020 with subsequent interest as per the agreement(s). The borrowers attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act. in respect of time available, to redeem the secured assets. DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY Against hypothecation of NA and /or against Mortgage of the properties detailed under: SI No: Name of the Owner Description of property Shri Ochi Ram S/o Shri Jamiat Equitable Mortgage of Flat No.1, Measuring 61.8 sq Rai(2) Shri Gopi Chand S/o Shri yards charged 2/3rd to ground floor and 1/3rd to first floor Jhanji Mal and (3) Shri Roshan (First floor Flat), situated at New Market, Tilak Nagar, Lal S/o Shri Jamiat Rai New Delhi-110018, bounded by: North-Open, South: Main Road Najaf Garh Road, West: Gali, East: Flat No.2 2 1.Shri Roshan lal S/o Late Shri Equitable Mortgage of Flat No.2 admeasuring 61.60 so Jamiat Rai (one half undivided yds, situated at New Market, Tilak Nagar, New Delhi share) and Shri Lachman Dass, 110018 bounded by:North-Open,South-Main Najafgarh S/o Late shri Tannu Mal (One half Road, East: Gali, West-Flat No.3 undivided Share) ³ Smt Sarita Lalwani W/o Shri Extension of Equitable Mortgage of property No. 12 Part of Roshan Lal Lalwani Khasra No.289, built on land area measuring 1248 SFT. (phirni Road)Village Nangaloi sayed, New Delhi bounded Whereas, by North-Plot No RZ-43, East-Property No.15, West-Firni Road & entry for Plot No. 12, South-Other's Property Sd/ (K. V. S. N. Murty) Asst.General Manager & Authorized Officer Union Bank of India (E-Andhra Bank) Date: 15.01.2021 Green Park Place: New Delhi, Green Park **IDBI Bank Ltd.** IDBI BANK 1/6, Sat Pual Mittal Centre, Khel Gaon Marg, Siri Fort Institutional Area, New Delhi-110049, Ph. 26499161, 26499681-85 POSSESSION NOTICE [Under Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002] Whereas, The undersigned being the authorized officer of the IDBI Bank Ltd, 1/6, Sat Pual Mittal Centre, Khel Gaon Marg, Siri Fort Institutional Area, New Delhi-110049

MOIL LIMITED Formerly Manganses Ore (India) Ltd. (A Government of India Enterprise) "MOIL BHAWAN", 1-A, Katol Road, Nagpur-440 013 CIN: 99999MH1962GOI012398 MOIL GST Registration (MS) - 27AAACM8952A1ZL MOIL GST Registration (MP) - 23AAACM8952A1ZT

NOTICE INVITING TENDER E-PROCUREMENT

Tenders are invited from reputed Manufacturers for supply of the following materials: Purchase Tender No.: 1) WE-88 2) WE-893) WE-904) WE-915) WE-92& 6) WE-93

*Brief description of item: 1) LT Panels 2) Cement - 1051 MT 3) HT/LT Electrical Cables (Assorted Sizes) 4) Drilling Accessories for Universal Drilling Machine-5 Items 5) Continuous Ambient Air Quality Monitoring System (CAAQMS) with three year CAMC - 9 Sets 6) Hand Held Ground Penetrating Radar (GPR) Instrument (SSP- Sub Surface Profiler) to ensure higher safety standards in underground mine

Tendering Authority Address: Dy. G.M. (Materials), MOIL LIMITED, "MOIL BHAWAN", 1-A, KATOL ROAD, NAGPUR 440 013. Ph. No. PBX: 0712-2806100, Fax No.: 0712-2592360


For details of Tender Document & Schedule of Tender visit website: http://www.moil.nic.in and www.eprocure.gov.in

For participation in e-tendering visit website (MSTC): www.mstcecommerce.com/eprochome/moil

*For detailed specifications & instructions refer tender document. Any further updates/corrigendum will only be uploaded in the above mentioned

websites and will not be published in newspapers. Bidders are requested to visit websites regularly to keep themselves updated. Dy. G.M. (Materials)

MOIL – Adding Strength to Steel



Possession Notice (For Immovable Property)

Issued under Rule 8(1)] of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

The undersigned being the Authorized officer of THE KARUR VYSYA BANK LIMITED under the Securitisation & Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest (Second) Act, 2002 (Act 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 20.03.2020 calling upon the borrower (1) M/S Jai Shiv Shakti Dwellings Pvt Ltd, D-2/75, Virat Khand, Gomti Nagar, Lucknow -226 010; (2) Shri Manish Kumar Singh, S/O Shri Ramesh Kumar Singh, Flat No: 1004, Chelsea Tower, Omaex Heights, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226010 and (3) Mr Sushil Kumar Singh, S/O Shri Ramesh Kumar Singh, D-2/75, Virat Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010 to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 26,82,214.00 (Rupees Twenty Six Lacs Eighty Two Thousands Two Hundred Fourteen only) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement) Rules, 2002 on this the 16th day of January, of the year 2021;

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of THE KARUR VYSYA BANK LIMITED for an amount of Rs. 26,82,214.00 (Rupees Twenty Six Lacs Eighty Two Thousands Two Hundred Fourteen only) and interest thereon.

	RCLE OFI	ES ADMIN. DIV FICE PANIPAT E mail:copnpga	602605005	in
E-AUCTION SAL	E NOTI	CE TO GENE	RAL PU	BLIC
AUX 24144	vable properti	ies as per details giver FTHE ASSET	n here under. S	
Description	Reserve Price	Earnest Money Deposit (EMD)	Time of	Date and Time of Auction
of property	(Rs. in Lac)	Amount & Last date of deposit of EMD (Rs. in Lac)	mayovityii	- a la cancita

Interested parties may inspect the property as mentioned above. For further details, please visit the websites https://www.pnbindia.in; https://etender.pnbnet.in/ https://eprocure.gov.in/epublish/app and/or contact Sh.Ashok Kumar - Chief Manager, (Mobile No.7082222703).

Any corrigendum /Extension of date/ clarification in respect of the above said auction shall be released only at our website https://www.pnbindia.in which may be visited regularly by the intending bidders. Date: 16.01.2021 Place: Panipat Authorised Officer

BENCH AT CHANDIGARH CP (CAA) No. 20/Chd/Chd/2020 IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 2013, SECTION 230 to 232 AND OTHER APPLICABLE PROVISIONS AND IN THE MATTER OF SCHEME OF AMALGAMATION BETWEEN eel Strips Limited, having its registered office at Village Harkishanpura, awanigarh, Tehsil Sangrur, Punjab 148026 ... Transferor/Applicant Company No. 1 WITH B Industries Limited, having its registered office at SCO 49-50, Sector 26,

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

dhya Marg, Chandigarh ... Transferee/Applicant Company No. 2 NOTICE OF HEARING OF PETITION

petition under Section 230 to 232 of the Companies Act, 2013 and rules made there der, for sanctioning of the scheme of Amalgamation between Steel Strips Limited ransferor Company) with SAB Industries Limited (Transferee Company) was esented by the above named Petitioner Companies on 01.12.2020 before the Hon ble tional Company Law Tribunal, Plot No.4B, Ground floor, Sector 27-B, Chandigarh and said Petition is now fixed for hearing before the Hon'ble Tribunal on 10.03.2021. Any rson desirous of supporting or opposing the said Petition should sent his intention in m of an affidavit stating grounds therein, signed by him or his advocate, with his name and address, to the Hon'ble Tribunal and a copy of the same to the under mentioned authorized representative for Petitioner Companies, so as to reach them not later than two days' before the date fixed for the hearing of the petition. A copy of the petition / Scheme will be furnished by the authorized representative for the Petitioner Companies free of cost. to any person requiring the same.

Mast Ram Chechi, FCS. **Counsel for the Petitioner Companies** Date: 15.01.2021

SCO 35, 1st Floor, Sector 20 C, Chandigarh-160020 9417264876, mrchechi@yahoo.com

NORTHERN RAILWAY

Principal Chief Materials Manager

Headquarters Office, Baroda House, New Delhi-110001

Mail ID: salenr365@gmail.com

No. 117-S-Sales-Auction Programme-2020-21

Dated 14.01.2021

e-AUCTION NOTICE NO. March/21

E-Auction will be conducted for disposal of Ferrous Scrap, Non Ferrous Scrap, Other Misc Scrap, Condemned Loco, Coaches and Wagons, including Scrap Rail and other scrap P Way material. Auction programme is as under.

#	Depots/Div.		Auction Dates for March/21 (Time: 11:00 AM)																	
1	DY.CMM/AMV 0522-2451257	2	4	6	9	11	13	15	16	17	18	20	22	23	24	25	26	27	30	31
2	DY.CMM/SSB 011-27015387	2	4	6	9	11	13	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	27	30	31
3	DY.CMM/JUDW 01732-252388	2	4	6	9	11	13	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	27	30	31
4	Sr.DMM/MB 0591-2413141	1	3	5	8	10	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	30	31	
5	Sr.DMM/FZR 01632-244154	1	3	5	8	10	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	30	31	
6	Sr.DMM/LKO 0522-2234756	1	3	5	8	10	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	30	31	
7	Sr.DMM/DLI011-23365311	1	3	5	8	10	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	30	31	144
8	Sr.DMM/UMB 0171-2611203	1	3	5	8	10	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	30	31	

1. The details of item to be sold in auction will be available in catalogue at www.ireps.gov.in.

2. The intending purchasers may inspect the scrap material before the auction during working hours at nominated locations. In this regard details are available at ireps

section 13 (12) read with rule 8 and 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice u/s 13(2) on dated 16.09.2020 calling upon the borrower/ guarantor M/s Swift Handicrafts, Partners Mr. Sangeet Yadav, Mr. Manmeet Yadav, Mrs. Santosh Yaday & Late Sh. Hazari Lal Yaday (to be represented by legal heirs) (Borrower, Guarantor & Mortgager) to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 2,92,23,353.00/- (Rupees Two Crore Ninety Two Lakh Twenty Three Thousand Three Hundred and Fifty Three Only) as on 17.07.2020 within 60 days from the date of receipt of the said notice with future interest and incidental charges w.e.f. 01-06-2020. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/ Guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 and 9 of the said rule on this 12th Day of January of the year Two Thousand and Twenty One. The borrower/ Guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the IDBI Bank Ltd, 1/6, Sat Pual Mittal Centre, Khel Gaon Marg, Siri Fort Institutional Area, New Delhi-110049 for an amount Rs. 2,92,23,353.00/- (Rupees Two Crore Ninty Two Lakh Twenty Three Thousand Three Hundred and Fifty Three Only) as on 17.07.2020 with future interest and incidental charges w.e.f. 01.06.2020.

under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of

Security Interest Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under

Particulars of the Secured Assets intended to be enforced

- I. The Hypothecated Assets :- Hypothecation of raw materials, Stock in process Finished & semi finished goods, Store & spare, P&M and other movable assets and the present & future Book Debts of the company M/s. Swift Handicrafts
- The Mortgaged Assets
- All that piece and parcel of land comprised in and forming part of immovable property situate at property no. DDA Duplex SFS Flat Bearing No. 157, Category-III on Dupley Second & Third Floor Hauz Khas New Delhi-110016 in the name of Mrs. Santosh Yadav or thereabouts, situate within the City limits of South District in the State of Delhi and which is bounded as follows : On the East by : Open/ Service Lane & Park On the West by : Open/road., On the South by : Other Flat, On the North by : Entry /Staircase / Flat no.158. together with all buildings and structures thereon and al plant and machinery attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth, both present and future.
- B) All that piece and parcel of land comprised in and forming part of immovable property situate at property no. Shop No. 12, Ist Floor, CSC Complex, Hauz Khas, Delhi-110016 in the name of Late Sh. H.L. Yadav, Mrs. Santosh Yadav, Mr. Sangeet Yadav and Mr. Manmeet Yadav or thereabouts, situated within the City limits of South District in the State of Delhi and which is bounded as follows: On the East by : Office Space No. 13, On the West by : Open, On the South by : Open, On the North by Open. together with all buildings and structures thereon and all plant and machinery attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth, both present and future.

Date: 12/01/2020	Authorised Officer		
Place : New Delhi	IDBI Bank Ltd.		



Bank of Baroda (E-Vijaya Bank) Appendix IV, Rule 8(1) Hauz Khas Branch POSSESSION NOTICE D-65, Hauz Khas (for immovable property) Mew Delhi -110016 (INDIA)

Whereas The undersigned being the authorized officer of Bank of Baroda, (E-Vijava Bank), Hauz Khas Branch, New Delhi under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest(Second) 1[Act], 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 11/11/2019 calling upon the Borrower(s): M/s Josnika Food and Beverages Private Limited at Registered Office Address at 5, Gorky Terrace (3rd Floor), Kolkata-700017; H-37, Outer Circle Cannaught Place, New Delhi -110001 (unit); K-101, Hauz Khas, New Delhi-110016 represented by Director(s): Mrs. Sumana Ghosh and Mr. Sunil Chander Nair ; Corporate Guarantor(s): M/s Josnika Developers Private Limited and M/s Arcava Real Estate Private Limited and Guarantor(s): Mrs. Sumana Ghosh, Mr. Sunil Chander Nair and Late Partha Ghosh for Rs.5,07,25,439.35 (Five Crore Seven Lakhs Twenty Five Thousand Four Hundred And Thirty Nine Rupees And Thirty Five Paise only) as on 31.10.2019 within 60 days from-the date of receipt of the said notice towards outstanding(s) of the availed Term Loan and Cash Credit Facility.

The borrower having failed to repay the amount due towards the Term Loan and Cash Credit Facility within stipulated 60 days from the date of receipt of Notice dated 11/11/2019, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned, Bank of Baroda, (E-Vijaya Bank), Hauz Khas Branch, New Delhi has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/ her under Section 13(4) of the said 1[Act] read with rule 8 of the said rules on 14th day of January of the year 2021 (in respect of property no.1) mentioned herein below and 15th day of January of the year 2021(in respect of property no.2 & 3) mentioned herein below. The Borrower/Guarantors/Mortgagors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property/ies detailed below and any dealings with the property/ies will be subject to the charge of Bank of Baroda, (erstwhile Vijaya Bank), Hauz Khas Branch, New Delhi for an amount Rs.5,07,25,439.35 (Five Crore Seven Lakhs Twenty Five Thousand Four Hundred And Thirty Nine Rupees And Thirty Five Paise only) as on 31.10.2019 and further interest thereon at contractual rate plus costs, charges and expenses till date of payment. The Borrower's attention is invited to provision of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description of the Immovable Property

		or, Chelsea Tower, Omex Heights, Plot Smoti Nagar, Lucknow – 226010 and
bounded on:		
North : Open to sky	South : Open to Sky	
East : Corridor	West : Open to sky	
Place: Lucknow	19 B	Chief Manager & Authorized Officer
Date : 16.01.2021		THE KARUR VYSYA BANK LIMITED

SHE	OMKARA ASSETS RECONSTRUCTION PRIVATE LIMITED Regd. Office: 9, M.P. Nagar, 1st Street, Kongu Nagar Extn, Tirupur – 641607. Ph No. 04212221144 Corporate Office: C/515, Kanakia Zillion, Junction of LBS Road and CST Road BKC Annexe, Near Equipox, Kurla
30	Regd. Office: 9, M.P. Nagar, 1st Street, Kongu Nagar Extn, Tirupur – 641607. Ph No. 04212221144
1	Corporate Office: C/515 Kanakia Zillion Junction of LBS Road and CST Road BKC Annexe. Near Equipox, Kurla

120/2021

Imi (West), Mumbai-400070, Tel.: 022-26521804

[Appendix - IV-A] [See proviso to rule 8 (6)] PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY DATE OF E-AUCTION: February 04, 2021

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with provision to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the below mentioned Borrowers (s) and Guarantor (s) named hereinafter that the below described immovable properties mortgaged/charged to the Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorized Officer of Omkara Asser Reconstruction Pvt Ltd. (Acting in its capacity as a Trustee of Omkara-PS 14/2017-18 Trust) will be sold in exercise of rights and powers under the provisions of sections 13 (2) and (4) of SARFAESI Act; on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" and "Without recourse Basis" on 04.02.2021 at 1.00 PM (last date and time for submission of bids is 03.02.2021 before 4.00 PM), for recovery of amount shown below in respective column due to Omkara Assets Reconstruction Pvt Ltd as Secured Creditor form respective Borrowers and Guarantors shown below.

The Reserve Price and the earnest money deposit of respective property has been mentioned below in respective column.

The description of Borrowers and mortgagors with description of the immovable property and known encumbrances (if any) are as

Name of Borrower and Co-Borrower	Date of Demand Notice	Description of immovable property	Reserve Price EMD	Inspection Date and Time	Outstanding Dues in Rs.
Mrs. Deepti Mavi (Borrower) Mr. Gaurav Mavi (Guarantor)	18.09.2017	All that Piece and Parcel Institutional Plot No. NS- 59,	Rs.370.00 lacs	wave.	Rs.4,80,55,591.39/- (Rupees Four Crore Eighty
Mr. Ramprakash Mavi (Guarantor)	Date of Physical Possession 13.03.2020	Situated in Sector Sigma -I, Greater Noida, Dist. Gautam	EMD Rs. 37.00 Lacs	01.02.2021 Time: 10 AM to 1 PM	Lacs Fifty-Five Thousand Five Hundred Nighty-One and Thirty-Nine Only) as on 28.08.2020 plus interest and other charges.

Minimum Bid increment amount | Rs. 10.000/- (Rs. Ten Thousand Only)

For detailed terms and conditions of the sale please refer to the link provided in http://omkaraarc.com/auction.php **TERMS & CONDITIONS:**

 The auction sale will be conducted online through the auctioneer portal www.bankeauctions.com on "As is where is", "As is what is" "whatever there is" and "Without Recourse Basis".

- 2. The secured assets will not be sold below Reserve Price. All statutory dues/ attendant charges/other dues including registration charges, stamp duty, taxes etc. shall have to be borne by the successful bidder.
- 3. The last date for payment of EMD, and submission of Bid Form & Documents to Authorised Officer at C/515, Kanakia Zillion, Junction of LBS Road and CST Road BKC Annexe, Near Equinox, Kurla (West), Mumbai is 03:02:2021 up to 4:00 PM.
- 4.To the best of knowledge and information of the Authorised Officer, there is no known encumbrance on any property. However, the intending bidders should make their own independent inquiries regarding the encumbrances, title of property/ ies put on auction and claims/ rights/ dues ongoing litigation, effecting the property, prior to submitting their bid. The Public Auction advertisement does not constitute and shall not be deemed to constitute any commitment or any representation of the OMKARA ARC. The property is being sold with all the existing and future encumbrances whether known or unknown to the OMKARAARC.
- 5. The Authorized Officer/ Secured Creditor shall not be responsible in any way for any third-party claims/ rights/ dues. To the best of knowledge and information of the Authorised Officer, there is no encumbrance on the property statutory dues like property taxes, society dues etc. The OMKARA ARC however shall not be responsible for any outstanding statutory dues/encumbrances/tax arrears, if any. The intending bidders should make their own independent inquiries regarding the encumbrances, title of property/les & to inspect the property and office of government, revenue and court and their records to satisfy themselves. Properties can be inspected strictly on the above-mentioned dates and time:
- 6. The successful bidder shall deposit 25% of bid amount (after adjusting EMD) immediately i.e., on the same day but not later than the next working day, as the case may be and balance 75% amount must be paid within 15 days from confirmation of sale. On failure to

To register for in e-auction, purchasers need to visit website 'www.ireps.gov.in'. In case any difficulty in registering purchasers may contact Dy. CMM/S&P

(Perhlad Singh)

Dy. CMM/S&P

SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE

AMTEK AUTO LIMITED

CIN: L27230HR1988PLC030333

Regd. Office: Plot No.16, Industrial Area, Rozka Meo, P.O.Sohna, Gurgaon Gurgaon HR-122003 IN Corporate Office: 3 LSC Pamposh Enclave, Greater Kailash-I, New Delhi-110048 Tel: +91-11-42344444 Fax: +91-11-42344400 E-mail: info@amtekauto.com; Web: www.amtek.com

EXTRACT OF THE STATEMENT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020

					(F	ts. In Lakhs)				
SI.	B . 422 (1997)	Standalone								
No.	Particulars	Quarter Ended 31.03.2020 (Audited)	Quarter Ended 31.12.2019 (Un-Audited)	Quarter Ended 31.03.2019 (Audited)	Year Ended 31.03.2020 (Audited)	Year Ended 31.03.2019 (Audited)				
1.	Total Income from operations	14,943	18,886	27,584	74,836	115,494				
2.	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	(82,520)	(8,323)	(6,304)	(107,909)	(29,169)				
3.	Net Profit/ Loss for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(81,829)	(9,444)	(11,348)	(108,339)	(35,660)				
4.	Net Profit for the period after tax from continuing business(after exceptional and/or extraordinary items)	(81,829)	(9,444)	(11,348)	(108,339)	(35,660)				
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	(81,759)	(9,411)	(11,317)	(108,169)	(35,555)				
6.	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 2/ each)	4,965	4,965	4,965	4,965	4,965				
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	<u>91</u> 24	822	12	(1,055,907.00)	(947,738.00)				
8.	Earnings per Share (F.V. of Re 2/- each)									
	a Basic b Diluted	(32.96) (32.96)	(3.80) (3.80)	(4.57) (4.57)	(43.64) (43.64)	(14.36) (14.36)				

The above Statement of Standalone unaudited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2020 have been prepared in terms of Regulation 33(2) of SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulation 2015, read with SEBI Circular dated July 5, 2016. Since the powers of the Board of Directors stand suspended after commencement of CIRP, the above audited results for the Quarter and Year ended March 31, 2020 have been endorsed by Chief Financial Officer, confirming that financial results do not contain any material misstatements and thereafter provided to the Resolution Professional for his signing on January 15, 2021 and for further filing with stock exchanges

During the financial year 2017-18, the Company had availed interim finance of Rs. 6,000 Lakhs (out of the sanction of Rs. 10,000 Lakhs) from ECL Finance Limited at the interest rate of 15.90% p.a. ECL Finance Limited had assigned this loan to Edelweiss Asset Reconstruction Limited on September 15, 2018 together with all rights, title and interest. The entire loan had become overdue since November 29, 2018. Subsequent to the close of guarter / year ended 31st March 2020, the Company has repaid the entire dues on 21st October, 2020.

Exceptional items and impairment losses (i) During the Financial year 2017-18, under the CIRP, the Resolution Professional and the lenders obtained valuation(s) of its entire assets from approved valuers. Based on such valuations obtained, the Company assessed the need to carry out an impairment / diminution in the carrying value of all of its assets (i.e. Property, Plant and Equipment, Capital work-in-progress, Investments, Inventories, Trade Receivables, and Other Financial Assets). The impact of impairment / diminution was recorded as 'exceptional items' in the financial statements of 2017. 18. The Company had recorded further impairment / diminution in its books of account during the financial year 2018-19, owing to there being no operations in few of its plants due to lack of orders from OEMs. The provision for impairment has been worked out on the basis of valuation referred to in valuation reports and the Resolution Plan as approved by NCLT vide Order dated July 25, 2018; without any reference to determination of 'value-in-use'. The Company is in the process of determining the value-in-use'. (ii) Uptill the Quarter and Nine Months ended December 2019, the fair value of Company's investment in Amtek Global Technologies Pte. Ltd. ("AGT", which is under Receivership in Singapore) has been worked out on the basis of Company's assessment, which has been derived from

@ value from approved valuers, as obtained under the CIRP during the financial year 2017-18; and/or

- with no guarantee). Owing to continuing Receivership in AGT, thereby continuing non-availability of latest financial statements and other financial information of the subject entity with the Company, the latest fair value could not be assessed and uptil the Quarter and Nine Months ended December 2019, was considered same as considered in previous quarter(s)/previous year(s). However, the company has decided to reassess (during the quarter / year ended 31st March 2020) the fair value to be Rs. 0.07 Lakhs (i.e., carrying cost) in light of adverse developments in European Auto Industry coupled with Covid effect during the current year and the continuing non-availability of latest financial statements and other financial information of the subject entity with the Company. The change in fair value has been charged to the Statement of Profit & Loss for the quarter / year ended 31st March 2020.
- Creditors' Claims (I) As a part of CIRP, creditors of the Company were called to submit their claims to the Resolution Professional". The summary position of the same is reproduced in the result uploaded in the website of the company and exchange.** In light of the approval of resolution plan by CoC8 its further approval by NCLT vide Order dated July 25, 2018, no provision is considered necessary for the differential claims. The party-wise reconciliation of liability appearing in books of account vis-a-vis their claims admitted is pending. (ii) The Company has not provided liability towards interest, penal interest charges and any foreign exchange fluctuation on claims by financial creditors for the period post July 24, 2017, since as part of the CIRP, the claims for interest, penal interest charges and foreign exchange fluctuation can impact their claims in Form C only till the date of commencement of CIRP of the Corporate Debtor i.e. July 24, 2017. Accordingly, no provision has been considered for the same.
- The Company has adopted Ind AS 116 on "Leases" with effect from April 1, 2019 by applying it to all contracts of leases. The Company has recognised and measured the Right-of-Use (ROU) asset and the lease liability on the contracts which came into existence during the Financial Year 2019-20. There were no existing lease contracts as on 31st March, 2019 on which transitional adjustments of IND AS 116 were required by the Company. The Company has ROU asset of Rs.4.086.64 Lakhs and a corresponding lease liability of Rs.4.267.50 Lakhs as at March 31, 2020. The effect of adoption of Ind AS 116 on financial ings per share for the year ended March 31, 20

Description of the Immovable Property:

Property 1: Equitable mortgage of Apartment No. 4A2, admeasuring 1264 square feet super built area on the 4th floor of the RIDGE residential tower constructed at Hiland Park, together with one car parking space bearing No. 4, located at the Deck Level Open of Ridge Tower at Hiland Park. Mortgagor of Flat is the Corporate Guarantor(s) : M/s Arcava Real Estate Private Limited vide Deed No. I-1901 01865/2018 on 17/03/2018 (Possession taken on 14.01.2021).

Property 2: All that piece and parcel of land admeasuring 0.375 acres thereabout situated at Andal, District : Burdwan, 0.018 Acres in Dag No. 1158, 0.019 Acres in Dag No. 1159, 0.090 Acres in Dag No. 1160, 0.161 Acres in Dag No. 1161 & 0.087 Acres in Dag No. 1164 comprised in J.L. No. 36, L.R. Khatian No. 4009, Mouza-Andal under P.S. Andal within the limits of Andal Gram Panchayat in the industrial zone of Aerotropolis. (Possession taken on 15.01.2021).

Property 3: All that piece and parcel of land admeasuring 0.8661 acres thereabout or 37,727 sq. ft. or thereabouts comprised of 0.0920 acres in R.S. Dag No. 1154, 0.2800 Acres in R.S. Dag No. 1155, 0.0400 Acres in R.S. Dag No. 1157, 0.2761 Acres in R.S. Dag No. 1158, 0.0189 Acres in R.S. Dag No. 1159, 0.0225 Acres in R.S. Dag No. 1161, 0.0970 Acres in R.S., Dag No. 1162, 0.0396 Acres in R.S. Dag No. 1157/1160, L.R. Khatian No. 4009, Mouza - Andal under P.S. Andal within the limits of Andal Gram Panchayat in the Mixed use zone of Aerotropolis. Mortgagor of Property 2 & 3 is the Corporate Guarantor(s): M/s Josnika Developers Private Limited vide Deed No. I-1903-03056/2018 on 12/12/2018 Property(ies) 2 & 3 is situated at Sujalam Sky City, Andal, NH-2, West Bardhaman (Possession taken on 15.01.2021). Authorised Officer Bank of Baroda (E-Vijaya Bank)

Hauz Khas Branch, New Delhi

Place: New Delhi

pay the sale price as stated all deposits including EMD shall be forfeited without further notice. However, extension of furthe reasonable time to make the balance 75% payment in exceptional situations shall be at sole discretion of authorized officer and subject to terms & amp; conditions as may be agreed upon in writing between the purchaser and the secured creditor in accordance with applicable provisions of law.

7. The interested bidders shall submit their EMD details and documents through Web Portal: www.bankeauctions.com through Login ID & Password. EMD amount should be paid by way of Demand Draft/Pay order/ NEFT / RTGS payable at Mumbai in favour "Omkara Trust- PS 14/2017-18" which is refundable without interest to unsuccessful bidders. The bank account details are as under: The EMD shall be payable through NEFT / RTGS/ in the following Account: 50439307034 Name of the Beneficiary: Omkara PS 14/2017-18, Bank Name: Allahabad Bank, Branch Name: BKC Branch, Mumbai IFSC Code: ALLA0212755. Please note that the Cheques / Demand Drafts shall not be accepted as EMD amount. The intended bidders who have deposited the EMD and require assistance in creating Login ID & Password, uploading data, submitting bid, training on e-bidding process etc., may contact e-Auction Service Provider "M/s. C1 India Pvt. Ltd", Tel. Helpline: +91-7291981124/25/26, Helpline E-mail ID: support@bankeauctions.com ,Mr. Jay Singh, Mobile: 77388 66326, E Mail - jay.singh@c1india.com, or Mr. Haresh Gowda, Mobile : 95945 97555 E mail - hareesh.gowda@c1india.com,and for any property related query may contact the concerned Authorised Officer Ms. Pratiksha Patel (Mobile - 97734 06175), E-Mail: Pratiksha.patel@omkaraarc.com or at address as mentioned above in office hours during the working days.

8. Bids below reserve price or without EMD amount shall not be accepted.

- 9. Property will be sold to bidder quoting the highest bid amount. Inter-se bidding will be at sole discretion of Authorised Officer. However, the Authorized Officer has the absolute power and right to accept or reject any tender/bid or adjourn/ postpone the sale without assigning any reason whatsoever thereof. 10.Interested parties are advised to independently verify the area of land, building and other details. Secured Creditor do not take any responsibility for any errors / omissions / discrepancy / shortfall etc. in the Secured Asset or for procuring any permission, etc. or for the dues of any authority established by law.
- 11.For any property related query or inspection of property schedule, the interested person may contact the concerned Authorised Officer Ms. Pratiksha Patel (Mobile - 97734 06175), E-Mail: Pratiksha.patel@omkaraarc.com or at address as mentioned above in office hours during the working days. 12. The Bank/ARC reserves its right to sell the property through private treaty as per law, in the event of failure of e-auction.

 The Authorized officer/secured creditor shall not be responsible for any error, inaccuracy or omission in the said proclamation of S3 8

14. Any fees, charges, taxes including but not limited to transfer/conveyance charges, unpaid electricity charges, Municipal/local taxes, Stamp duty & registration charges shall have to be borne by the purchaser only. 15.KYC compliance: - self attested photocopies of Proof of identification viz. Voter ID Card/PAN Card/Driving License etc. along with admissible residence proof should be attached by all the bidders along with the letter of offer/bid and in case of company, firm etc. proper resolution and authority letter must be submitted.

STATUTORY NOTICE FOR SALE UNDER Rule 8(6) & Rule 9(1) OF STATUTORY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES .2002

This notice is also a mandatory Notice of 15 (Fifteen) days to the Borrower/Guarantors of the above loan account under Rule 8 (6) of Security Interest (Enforcement) Rule, 2002 and provisions of Securitisation & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, informing them about holding of sale through Public Auction on the above referred date and time with the advice to redeem the assets if so desired by them, by paying the outstanding dues as mentioned herein above along with cost 8 expenses In case of default in payment, the property shall at the discretion of the Authorized Officer/Secured Creditor be sold through any of the modes as prescribed under Rule 8 (5) of Security Interest (Enforcement) Rule, 2002.

> Authorized Officer, Omkara Assets Reconstruction Pvt Ltd. (Acting in its capacity as a Trustee of Omkara PS 14/2017-18 Trust)


- The Company is engaged in the manufacturing and sale of Auto Components for the transportation industry and considering the Company's nature of business and operations and the information reviewed by the Chief Operating Decision Maker (CODM) to allocate resources and assess performance, the Company has only one reportable business segment as per the requirements of Ind AS 108 "Operating Segment" namely Auto components for transportation industry.
- Asset-held-for-sale: Company's investment in its joint venture company "SMI Amtek Crankshaft Private Limited" had been classified as "Asset-held-for-sale" since March 31, 2018 by virtue of Business Transfer Agreement dated 16.04.2018. The transfer could not be completed till the date of approval of these results for the reasons beyond the control of the management and it is expected to be completed within next 12 months. Nippon Steel and Sumitomo Metal Corporation ("NSSMC", the counterparty), has moved an application in NCLAT and sought specific instructions from the Hon'ble Bench to proceed. given that the LHG Resolution Plan has been set aside by the Hon'ble NCLT. The matter is pending with Hon'ble NCLAT.
- The spread of COVID-19 pandemic has affected the business operations post the Government of India declared a national lockdown on 25 March 2020. The Company has taken various measures in consonance with Central and State Government advisories to contain the pandemic, which included closing of manufacturing facilities. Post lifting the aforesaid lock down, the Company has carried out a comprehensive assessment of possible impact (that may result from this pandemic) on its business operations, financial assets, contractual obligations and its overall liquidity position, based on the internal and external sources of information and application of reasonable estimates. In that context and based on the current estimates, the Company does not foresee any significant incremental risk to the recoverability of its assets, other than those assets which have been duly impaired / provided for. In pursuant to the relaxed guidelines, the Company has now resumed its operations at all its plants. Since the situation is continuously evolving, the impact may be different from the estimates made as at the date of approval of these financial results. The Company will continue to monitor any financial implications arising due to the impact of this pandemic on financial and operational performance of the Company and take necessary measures to address the situation. On 20th September 2019, the Government of India vide the Taxation Laws (Amendment) Ordinance 2019, inserted Section 115BAA in the Income Tax Act, 1961, which provides domestic companies an option to pay income tax at reduced rate effective 01st April 2019, subject to certain conditions. The Company has elected not to exercise the option permitted under Section 115BAA of the Income Tax Act, 1961 and is therefore continuing with the previous tax rates for the purpose of tax provision and deferred tax in these Standalone Financial Results.
- I. The management has come across certain additional bank accounts with ICICI Bank in the name of Company, stamped non-operative by the Bank. This matter was immediately enguined with the Bank on 8th October 2020. The above-mentioned enguiny revealed the accounts pertain to public deposits received by the Company prior to FY 2008-09 and thus the balance could be related to repayment of deposits or related interest payment or expense payment etc. and there were no movement [except few insignificant transactions] in these accounts since past many years. Owing to internal issues towards data migration in FY 2008-09, these bank accounts (& related liability accounts) were omitted to be included in the Company's books of account in past years. Further, all communication / quarterly balance confirmation requests by the company have also not been responded by relevant bank in the past years and could not be identified any sooner. Balance existing in these accounts as on March 31, 2020 aggregating to Rs. 18.78 Lakhs, which came to the notice of management on 8th October 2020, have been recorded in the books of account as on March 31, 2020 with a corresponding credit to "Other Financial Liabilities" in the interim while the management is in the process of reconciling the corresponding depositors' details and will pursue with MCA (in the ensuing year) for the applicable compliances, including depositing the captioned amount with Investor Protection Fund, along with consequential penalty etc. The management has also taken up a detailed exercise with all its existing bankers, to ensure that there are no further such type of unrecorded bank accounts in the name of company and the outcome of such exercise is pending on the date of approval of these results.
- . The Vice Chairman and Managing Director of the Company was reappointed by the shareholders in the extra ordinary meeting held on March 25, 2017 for a period of two years effective from August 14, 2016. The Company based upon the legal opinion is of the view that for the purpose of the calculation of the minimum remuneration effective capital of the Company prescribed as per provisions of Schedule V of the Companies Act, 2013 would be based on the latest available audited financial statements at the date of meeting which was March 31, 2016 and same would be applicable for calculation of the minimum remuneration as per provisions of Schedule V of the Companies Act, 2013 for the year ended March 31, 2018. The Company has accordingly calculated excess remuneration of Vice Chairman and Managing Director of the Company during the period from April 1, 2017 to June 23, 2017 as Rs 3.31 Lakhs. The Vice Chairman and Managing Director of the Company has resigned during the (previous) financial year 2017-18 and therefore the excess remuneration paid/ charged to the statement of profit and loss account for the above-mentioned period could not be recovered from him during the (previous) financial year 2017-18. (ii) Subsequent to the aforesaid, in the current financial year, the Company has adjusted the above-stated excess remuneration from the Vice Chairman and Managing Director against reimbursement of expenses. (iii) For the aforesaid time being default in the provisions related to managerial remuneration, the Company will seek approval from the Ministry of Corporate Affairs for condonation, with consequential penalty and compounding fees, if any as per provisions of Companies Act. 2013. However in the absence of exact quantum of penalty and compounding fees, no adjustments for excess. remuneration paid and provision for penalty and compounding fees have been made in the financials of previous year(s) as well as these financials which shall be accounted in the year when the same is determined by the Ministry of Corporate Affairs.
- 2. The figures for the guarter ended March 31, 2020 and March 31, 2019 are the balancing figures between the audited figures in respect of full financial year and published year to date figures up to third quarter of the relevant financial year, which were subject to limited review by the statutory auditors.

		For Amtek Auto Limited
	Sd/-	Sd/-
Place: New Delhi	(Vinod Uppal)	(Dinkar T. Venkatasubramanian)
Date: 15.01.2021	Chief Financial Officer	Insolvency Resolution





Date: 17.01.2021









जनसत्ता, 17 जनवरी, 2021 5

राष्ट्र

नई दिल्ली, 16 जनवरी (भाषा)।

देश में पैदा हुए राजनीतिक संकट में चीन के

समापन पर यह भी कहा कि सीमा संबंधी मुद्दे के

समाधान के लिए नई दिल्ली और काठमांडू की

'साझा प्रतिबद्धता' है और दोनों ही पक्ष इसका

हल निकालने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं।

ज्ञवाली ने तीन दिवसीय भारत दौरे के

हस्तक्षेप करने की पृष्ठभूमि में आया है।

नेपाल घरेलू राजनीति में दखल कभी बारूदी सुरंगों में विस्फोट, एक महिला स्वीकार नहीं करेगा : ज्ञवाली की मौत

लातेहार, १६ जनवरी (भाषा)।

झारखंड के लातेहार–गुमला सीमा पर स्थित गारू थाना क्षेत्र के ग्रॉम गोपखांड से दो किलोमीटर दूर स्थित पण्डरा जंगल में माओवादियों द्वारा बिछाई बारूदी सूरंगों में शनिवार को हुए विस्फोट से जंगल में पत्ता बीनने गई एक महिला की मौत हो गई जबकि तीन अन्य महिलाएं घायल हो गईं जिन्हें इलाज के लिए गारू अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे सुरक्षाबलों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ भी हुई । गारु थाना प्रभारी रंजीत कुमार यादव ने बताया कि विस्फोट में झांसो देवी (34) नामक आदिवासी महिला की मौत घटना स्थल पर ही हो गई।

ज्ञवाली ने शुक्रवार को विदेश मंत्री एस. करता है।

बारे में पूछे जाने पर नेपाली विदेश मंत्री ने कहा, समाधान में सक्षम हैं। करीबी पड़ोसी (देश) होने के नाते कुछ चिंताएं या सवाल हो सकते हैं, लेकिन हम कभी दखल मंजर नहीं करते।'

जयशंकर से बातचीत की थी। उन्होंने शनिवार को संवाददाताओं के एक समुह से कहा कि नेपाल के भारत और चीन दोनों देशों के साथ 'अच्छे' संबंध हैं और वह कभी एक-दुसरे (इन दोनों देशों) के साथ संबंधों की तुलना नहीं

नेपाल में राजनीतिक संकट को कम करने के

नाम पर चीन की ओर से किए जा रहे प्रयासों के 'हम अपनी घरेलू राजनीति में कभी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करते। हम अपनी समस्याओं के

नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ज्ञवाली ने शनिवार को कहा कि नेपाल अपनी घरेलू राजनीति में कभी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि वह अपनी आंतरिक समस्याओं को संभालने में सक्षम है। ज्ञवाली का यह बयान नेपाल की संसद भंग होने के बाद इस पडोसी



लखनऊ १६ जनवरी (भाषा)

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि भारत-चीन विवाद के दौरान सेना ने शानदार प्रदर्शन किया और देश का मनोबल बढाया है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सेना के शीर्ष अधिकारियों के साथ लखनऊ छावनी स्थित मध्य सेना कमान में सेना के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए भूमि पूजन करने के बाद सिंह ने कहा, 'यह नया निर्माण हमें एक संदेश देता है कि अगर पिछले साल बाधाएं थी, यह *सिंह* ने कहा, 'भारत-चीन विवाद के दौरान सेना के करिश्माई प्रदर्शन ने देश का मनोबल बढाया है, साथ ही नागरिकों को अपना सिर ऊंचा रखने में सक्षम बनाया है।

समाधान का वर्ष है।' सिंह ने कहा, 'भारत-चीन विवाद के दौरान सेना के करिश्माई प्रदर्शन ने देश का मनोबल बढाया है. साथ ही नागरिकों को अपना सिर ऊंचा रखने में सक्षम बनाया है।' उन्होंने कहा कि इस साल भारत-पाकिस्तान यद्ध का स्वर्ण जयंती वर्ष

पुरी दुनिया में ऊंचा हुआ है। रक्षा मंत्री ने कहा, पूरी दुनिया कोरोना संकट का सामना कर रही हैं और किसी ने यह नहीं सोचा था कि महामारी की शुरुआत के साथ होली, ईद और दिवाली जैसे त्यौहारों को धूमधाम फीकी हो जाएगी। किसी ने कल्पना

मनाया जा रहा है जिससे भारत का मस्तक

भाजपा ने शाहनवाज को कश्मीर में ठंड का राजमार्ग निर्माण संबंधी मनोहर पर्रीकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एण्ड एनलिसिस (एमपी-आईडीएसए) सं. 1, डेवलपमेंट एन्कलेव, दिल्ली कैंट, नई दिल्ली-110010 याचिका पर उत्तराखंड बनाया बिहार विधान परिषद दूरभाष नं.: 011-26717983 सरकार से जवाब तलब वेबसाइट: www.idsa.in (विज्ञापन सं.: MP-IDSA/0239/2021) प्रकोप बढा, पारा नैनीताल, 16 जनवरी (भाषा)। निम्नलिखित पदों हेतु आवेदन आमन्त्रित किए जाते हैं: चुनाव में उम्मीदवार उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने और नीचे गया पद का नाम रिक्तियाँ वेतन विवरण क्र.सं. राज्य सरकार से पूछा है कि अना. अ.जा. अ.ज.जा. इंडब्ल्युएस अ.पि.व. कुल प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नई दिल्ली/पटना, 16 जनवरी क्या राजमार्ग के निर्माण के पे मैट्रिक्स लेवल 14 (रु. 144200-वरिष्ठ अध्येता के कार्यकाल में वह नागरिक 02 1 (भाषा)। लिए उचित अनुमति ली गई थी, F. 218200)* उड़ुयन मंत्री भी रह चुके हैं। श्रीनगर, 16 जनवरी (भाषा)। 8.2 डिग्री नीचे दर्ज किया गया जिसका हिस्सा एक राष्ट्रीय शोध अध्येता (सेलेक्शन 02 पे मैट्रिक्स लेवल 13 (रु. 123100-भाजपा ने राष्ट्रीय प्रवक्ता व पार्टी ने हुसैन को बिहार से 1 1 जबकि पिछली रात न्यूनतम उद्यान से होकर गुजरता है। रु. 215900)* उम्मीदवार बनाने के अलावा उत्तर पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन कश्मीर के कई इलाकों में तापमान शून्य से 7.6 नीचे दर्ज मुख्य न्यायाधीश आर एस शोध अध्येता 02 पे मैट्रिक्स लेवल 12 (रु. 78800 1 - 100 -1 प्रदेश विधान परिषद चुनाव के को बिहार विधान परिषद चुनाव के शनिवार को न्यूनतम तापमान में किया गया था। उन्होंने बताया कि चौहान और न्यायमूर्ति मनोज 天, 209200)* लिए भी छह उम्मीदवारों के नामों मद्देनजर शनिवार को उम्मीदवार और गिरावट दर्ज की गई जिससे शुक्रवार रात को श्रीनगर में न्यूनतम कुमार तिवारी के खंडपीठ ने एसोसिएट अध्येता 06 पे मैट्रिक्स लेवल 10 (रु. 56100-4. 4 1 -1 की घोषणा की। इनमें कुंवर बनाया। इसके साथ ही हसैन की घाटी में सर्दी का प्रकोप और बढ़ तॉपमान सामान्य से छह डिग्री से राज्य सरकार से पृछा कि रु. 177500)* चुनावी राजनीति में वापसी हो गई मानवेंद्र सिंह, गोविंद नारायण गया है। इसकी वजह से प्रसिद्ध डल अधिक नीचे दर्ज किया गया। शोध विश्लेषक 10 पे मैट्रिक्स लेवल 6 (रु. 35400-राजमार्ग के इस खंड के निर्माण 5 3 1 शुक्ला, सलिल बिश्नोई, अश्विनी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में झील के साथ-साथ कई इलाकों में श्रीनगर में गुरुवार को न्यूनतम 112400)* के लिए बड़े पैमाने पर जो पेड़ों हार के बाद यह पहला मौका है, त्यागी, धर्मवीर प्रजापति और सुरेंद्र पानी के स्रोत जम गए हैं। श्रीनगर तापमान शून्य से 8.4 डिग्री नीचें दर्ज जब वह चुनाव मैदान में उतरेंगे। चौधरी शामिल हैं। राज्य की 12 की कटाई की जा रही है, उसके सहित घाटी के कई इलाकों में किया गया जो 1991 के बाद सबसे * पद के साथ प्रस्तावित वेतन/पारिश्रमिक समीक्षा के अधीन है और परिवर्तित हो सकती है। 2014 में वह भागलपुर से विधान परिषद सीटों के लिए 28 बदले में क्या उनकी कोई उनकी शनिवार की सबह घना कोहरा छाया कम तापमान है। पात्रता, मानदण्ड, शैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि सहित पदों के विवरण संस्थान की वेबसाइट लोकसभा का चुनाव हार गए थे, जनवरी को मतदान होना है और क्षतिपरक वनीकरण योजनाएं रहा जिससे दृश्यता घट गई। हाड़ कंपाने वाली सर्दी की जबकि 2019 में उन्हें पार्टी ने नामांकन पत्र दाखिल करने की हैं।अदालत शुक्रवार को एक मौसम विभाग के अधिकारी ने http://www.idsa.in/jobs पर दिये गये हैं। वजह से डल झील की सतह जम टिकट नहीं दिया था। पूर्व अंतिम तारीख 18 जनवरी है। याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बताया कि बीती रात न्यूनतम गई है और अधिकारियों ने लोगों के आवेदन की अन्तिम तिथि : 15 फरवरी, 2021 को 5.00 बजे अप. तक तापमान में और गिरावट एवं उसके लिए उस पर नहीं चलने को लेकर निरस्तीकरण शून्य से भी कई डिग्री सेल्सियस परामर्श जारी किया है। लोगों की AMTEK AUTO LIMITED एसोसिएट अध्येता के पद हेतु भर्ती से संबंधित 27 फरवरी, 2018 को टाइम्स ऑफ इंडिया, जनसत्ता नीचे चले जाने से शीत लहर का सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रकोप और बढ़ गया है। मोचन (हिंदी) तथा 10-16 फरवरी, 2018 को रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन सं.: आपदा बल CIN: L27230HR1988PLC030333 उन्होंने बताया कि जम्मू-(एसडीआरएफ) और नदी पुलिस Regd. Office: Plot No.16, Industrial Area, Rozka Meo, P.O.Sohna, Gurgaon Gurgaon HR-122003 IN IDSA/0224/2018 निरस्त कर दी गयी है। Corporate Office: 3 LSC Pamposh Enclave, Greater Kailash-I, New Delhi-110048 DAVP 10113/11/0012/2021 कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी जम चुके जलाश्य के आसपास गश्त Tel: +91-11-42344444 Fax: +91-11-42344400 E-mail: info@amtekauto.com; Web: www.amtek.com श्रीनगर में न्यूनतम तापमान शून्य से लगा रहे हैं। EXTRACT OF THE STATEMENT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS ओमकारा एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : 9, एमपी नगर, प्रथम गली, कोंगू नगर एक्स., तिरुपुर-641607 दूरभाष : 04212221144 कॉर्पोरेट कार्यालय : सी/515, कनकिया जिलियन, एलबीएस रोड तथा सीएसटी रोड का जंक्शन, बीकेसी एनेक्सी, निकट इक्विनॉक्स, कुर्ला (पश्चिम), मुम्बई-400070. दरभाष : 022 - 26521904 FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020 तल

кув) Karur	Vysya	Bank	द करूर वैस्य बैंक लि., मंडल कार्यालय नं. 6, 3रा
	Smart	way to	bank	मेट्रो पिलर नं. 80 के सामने करोलबाग, नई दिल्ली-1100

, पुसा रोड,

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये) प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत जारी

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, (द्वितीय) 2002 (2002 के अधिनियम 54) के अंतर्गत द करूर वैस्य बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 20.03.2020 जारी कर ऋणधारक 1) मै. जय शिव शक्ति डवेलिंग्स प्रा. लि., डी-2/75, विराट खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010, 2) श्री मनीश कुमार सिंह, पुत्र श्री रमेश कुमार सिंह, फ्लैट नं. 1004, चेल्सिया टावर, ऑमैक्स हाइट्स, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, 226010 तथा 3) श्री सुशील कुमार सिंह, पुत्र श्री रमेश कुमार सिंह, डी-2/75, विराट खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 26,82,214.00 (रुपए छब्बीस लाख बायसी हजार दो सौ चौदह मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदुद्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 16 जनवरी, 2021 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 26,82,214.00 (रुपए छब्बीस लाख बायसी हजार दो सौ चौदह मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिये द करूर वैस्य बैंक लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पूर्ण आवासीय फ्लैट नं. 1004, 10वाँ तल, चेल्सिया टावर, ऑमैक्स हाइट्स, प्लॉट नं. टीसी जी–2/2, तथा टीसी/जी–5/5, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 तथा चौहदीः उत्तरः खुला आकाश, दक्षिणः खुला आकाश, पूर्वः कॉरीडोर, पश्चिमः खुला आकाश मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी स्थानः लखनऊ तिथि: 16.01.2021 द करूर वैस्य बैंक लिमिटेड

आईडीबीआई बैंक लि. **DBI BANK**

1/6, सत पुआल मित्तल सेन्टर, खेल गाँव मार्ग, सिरी फोर्ड इंडस्ट्रियल एरिया. नई दिल्ली-110049 फोनः 26499161, 26499681-85

कब्जा सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम सं. 54) के अंतर्गत आईडीबीआई बैंक लि. 1/6, सत पुआल मित्तल सेन्टर, खेल गाँव मार्ग, सिरी फोर्ड इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली–110049 के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ

नहीं की थी कि ट्रेनें रुक जाएंगी, स्कूल और

बाजार बंद हो जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र

मोदी के नेतृत्व में इस संकट का सामना किया

गया।' उन्होंने कहा कि महामारी के समय

सबसे बडी चुनौती परीक्षण की थी क्योंकि

शुरुआत में दो प्रयोगशालाएं थी लेकिन आज

एक हजार से अधिक प्रयोगशालाएं हैं।

30				2006 - M6586		ts. In Lakhs)			
SI.	Deutlaulaus	Standalone							
No.	Particulars	Quarter Ended 31.03.2020 (Audited)	Quarter Ended 31.12.2019 (Un-Audited)	Quarter Ended 31.03.2019 (Audited)	Year Ended 31.03.2020 (Audited)	Year Ended 31.03.2019 (Audited)			
1.	Total Income from operations	14,943	18,886	27,584	74,836	115,494			
2.	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	(82,520)	(8,323)	(6,304)	(107,909)	(29,169)			
3.	Net Profit/ Loss for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(81,829)	(9,444)	(11,348)	(108,339)	(35,660)			
4.	Net Profit for the period after tax from continuing business(after exceptional and/or extraordinary items)	(81,829)	(9,444)	(11,348)	(108,339)	(35,660)			
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	(81,759)	(9,411)	(11,317)	(108,169)	(35,555)			
6.	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 2/ each)	4,965	4,965	4,965	4,965	4,965			
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		_	_	(1,055,907.00)	(947,738.00)			
8.	Earnings per Share (F.V. of Re 2/- each)	0		8	ģ				
	a Basic b Diluted	(32.96) (32.96)	(3.80) (3.80)	(4.57) (4.57)	(43.64) (43.64)	(14.36) (14.36)			

. The above Statement of Standalone unaudited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2020 have been prepared in terms of Regulation 33(2) of SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulation 2015, read with SEBI Circular dated July 5, 2016. Since the powers of the Board of Directors stand suspended after commencement of CIRP, the above audited results for the Quarter and Year ended March 31, 2020 have been endorsed by Chief Financial Officer, confirming that financial results do not contain any material misstatements and thereafter provided to the Resolution Professional for his signing on January 15, 2021 and for further filing with stock exchanges.

During the financial year 2017-18, the Company had availed interim finance of Rs. 6,000 Lakhs (out of the sanction of Rs. 10,000 Lakhs) from ECL Finance Limited at the interest rate of 15.90% p.a. ECL Finance Limited had assigned this loan to Edelweiss Asset Reconstruction Limited on September 15, 2018 together with all rights, title and interest. The entire loan had become overdue since November 29, 2018. Subsequent to the close of quarter / year ended 31st March 2020, the Company has repaid the entire dues on 21st October, 2020.

Exceptional items and impairment losses (i) During the Financial year 2017-18, under the CIRP, the Resolution Professional and the lenders obtained valuation(s) of its entire assets from approved valuers. Based on such valuations obtained, the Company assessed the need to carry out an impairment / diminution in the carrying value of all of its assets (i.e. Property, Plant and Equipment, Capital work-in-progress, Investments, Inventories, Trade Receivables, and Other Financial Assets). The impact of impairment / diminution was recorded as 'exceptional items' in the financial statements of 2017-18. The Company had recorded further impairment / diminution in its books of account during the financial year 2018-19, owing to there being no operations in few of its plants due to lack of orders from OEMs. The provision for impairment has been worked out on the basis of valuation referred to in valuation reports and the Resolution Plan as approved by NCLT vide Order dated July 25, 2018; without any reference to determination of 'value-in-use'. The Company is in the process of determining the 'value-in-use'. (ii) Uptill the Quarter and Nine Months ended December 2019, the fair value of Company's investment in Amtek Global Technologies Pte. Ltd. ("AGT", which is under Receivership in Singapore) has been worked out on the basis of Company's assessment, which has been derived from:

@ value from approved valuers, as obtained under the CIRP during the financial year 2017-18; and/or

@ value assigned in the resolution plan [approved by NCLT dated July 25, 2018] (as pass-through to the existing financial creditors of the company, with no guarantee). Owing to continuing Receivership in AGT, thereby continuing non-availability of latest financial statements and other financial information of the subject entity with the Company, the latest fair value could not be assessed and uptil the Quarter and Nine Months ended December 2019, was considered same as considered in previous quarter(s)/previous year(s). However, the company has decided to reassess (during the quarter / year ended 31st March 2020) the fair value to be Rs. 0.07 Lakhs (i.e., carrying cost) in light of adverse developments in European Auto Industry coupled with Covid effect during the current year and the continuing non-availability of latest financial statements and other financial information of the subject entity with the Company. The change in fair value has been charged to the Statement of Profit & Loss for the quarter / year ended 31st March 2020.

Creditors' Claims (i) As a part of CIRP, creditors of the Company were called to submit their claims to the Resolution Professional". The summary position of the same is reproduced in the result uploaded in the website of the company and exchange. ** In light of the approval of resolution plan by CoC& its further approval by NCLT vide Order dated July 25, 2018, no provision is considered necessary for the differential claims. The party-wise reconciliation of liability appearing in books of account vis-à-vis their claims admitted is pending. (ii) The Company has not provided liability towards interest, penal interest charges and any foreign exchange fluctuation on claims by financial creditors for the period post July 24, 2017, since as part of the CIRP, the claims for interest, penal interest charges and foreign exchange fluctuation can impact their claims in Form C only till the date of commencement of CIRP of the Corporate Debtor i.e. July 24, 2017. Accordingly, no provision has been considered for the same.

The Company has adopted Ind AS 116 on "Leases" with effect from April 1, 2019 by applying it to all contracts of leases. The Company has recognised and measured the Right-of-Use (ROU) asset and the lease liability on the contracts which came into existence during the Financial Year 2019-20. There were no existing lease contracts as on 31st March 2019 on which transitional adjustments of IND AS 116 were required by the Company. The Company has ROU asset of Rs.4,086.84 Lakhs and a corresponding lease liability of Rs.4,267.50 Lakhs as at March 31, 2020. The effect of adoption of Ind AS 116 on financial statements and earnings per share for the year ended March 31, 2020 are not material

6. The Company is engaged in the manufacturing and sale of Auto Components for the transportation industry and considering the Company's nature of

[परिशिष्ट-IV-A] [नियम ८(6) का प्रावधान देखें] अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना ई-नीलामी की तिथि : 4 फरवरी, 2021

प्रतिभूति हित हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से निम्नलिखित कर्जदार(रों) एवं सह-कर्जदार(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा ओमकारा एसेट रीकंस्ट्रक्शन प्रा.लि. (ओमकारा पीएस 14/2017-18 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, नीचे वर्णित सम्बद्ध कर्जदारों तथा जमानतियों से ओमकारा एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्रा.लि. के पास नीचे सम्बद्ध स्तम्भ के सम्मुख बकायों की वसूली हेतु सरफाएशी अधिनियम की धारा 13(2) तथा (4) के प्रावधानों के प्रदत्त अधिकारों एवं शक्तियों के उपयोग में ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर 04.02.202 को 1.00 बजे अप. (संविदा जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय 03.02.2021 को 4.00 बजे अप. से पूर्व है) बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा सम्बद्ध सम्पत्ति की जमा धरोहर राशि सम्बद्ध स्तम्भ में अंकित है।

अचल समर्पत्त तथा ज्ञात ऋणभारों (यदि कोई हो) के विवरण सहित कर्जदारों तथा बंधककर्ताओं का विवरण निम्नलिखित है :

	कर्जदार तथा सह- कर्जदार के नाम	माँग सूचना की तिथि	अचल सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य ईएमडी	निरीक्षण की तिथि एवं समय	बकाया राशि रु. में
	श्रीमती दीप्ति मावी	18.09.2017	इंस्टीट्यूशनल प्लॉट सं.	रु. 370.00 लाख	तिथि : 01.02.2021	28.08.2020 तक रु.
	(कर्जदार)	भौतिक कब्जे की तिथि	एनएस-59, सेक्टर सिग्मा-I,	ईएमडी	समय : 10 बजे पूर्वा. से 1	4,80,55,591.39/- (रुपये
ŀ	- श्री गौरव मावी (जमानती)	13.03.2020	ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध	रु.	बजे अप.	चार करोड़ अस्सी लाख पचपन
	श्री रामप्रकाश मावी		नगर, उत्तर प्रदेश का सम्पूर्ण	37.00 लाख		हजार पांच सौ इक्यानबे एवं
	(जमानती)		भाग। स्वामित्व श्रीमती दीप्ति			उनतालीस पैसे मात्र) तथा
			मावी			ब्याज एवं अन्य प्रभार।
	न्यूनतम संविदा वृद्धि राशि	शः	रु. 10,000/- (रुपये दस हज	गर मात्र)	15	

न्यूनतम संविदा वृद्धि राशि : रु. १०,०००/- (रुपये दस हजार मात्र)

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया http://omkaraare.com/auction.php में प्रावधानित लिंक देखें। नियम एवं शर्तें

- 1. यह नीलामी बिक्री ऑक्शनियर पोर्टल www.bankeauctions.com के माध्यम से ''जहां है जैसे है'', ''जो है जैसे है तथा जो भी है वहीं'' औ ''उपचार रहित आधार पर'' ऑनलाइन संचालित की जायेगी।
- 2. प्रतिभूत आस्ति की बिक्री आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं की जायेगी। सभी विधिक बकाये/अटेंडेंट चार्ज/अन्य बकाये तथा पंजीकरण प्रभार, स्टैम्प शुल्क, कर आदि का वहन सफल बोलीदाता द्वारा किया जायेगा।
- 3. ईएमडी के भुगतान तथा अधिकृत प्राधिकारी, सी/515, कनकिया जिलियन, एलबीएस रोड तथा सीएसटी रोड के जंक्शन, बीकेसी एनेक्सी, निकट इक्विनॉक्स, कुर्ला (पश्चिम), मुम्बई के पास संविदा प्रपत्र तथा दस्तावेज जमा करने की अन्तिम तिथि 03.02.2021 को 4.00 बजे अप. तक है।
- . प्राधिकारी के उत्तम ज्ञान तथा सूचना के अनुसार सम्पत्ति/यों पर कोई ऋणभार नहीं है। किन्तु इच्छुक संविदाकार अपनी संविदा जमा करने से पूर्व ऋणभारों, नीलामी के लिए रखी गयी सम्पत्ति/यों के स्वामित्व तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकायों से सम्बन्धित अपनी निजी स्वतन्त्र पुछताछ कर लें। ई–नीलामी विज्ञापन ओमकारा एआरसी की किसी प्रतिबद्धता अथवा किसी प्रतिनिधान को निर्मित करने वाली नहीं मानी जायेगी। सम्पत्ति ओमकारा एआरसी के सभी वर्तमान तथा भावी ऋणभारों सहित बेची जा रही है।
- 5. अधिकृत प्राधिकारी/प्रतिभूत लेनदार किसी तृतीय पक्ष के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा। अधिकृत प्राधिकार के उत्तम ज्ञान तथा सूचना के अनुसार सम्पत्ति/यों पर किसी विधिक बकाये जैसे सम्पत्ति कर, समिति बकाये आदि के ऋणभार नहीं है। किन्तू ओमका एआरसी किसी बकाया विधिक देयताओं/ऋणभारों/बकाया करों, यदि कोई हो, के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इच्छुक संविदाकार ऋणभारों, सम्पत्ति/ये के स्वामित्व के विषय में अपनी स्वतन्त्र पूछताछ कर लें और निरीक्षण करके स्वयं को सन्तुष्ट कर लें। सम्पत्तियों का निरीक्षण उपर्युक्त तिथि एव समय पर किया जा सकता है।
- 5. सफल संविदाकार को संविदा राशि (ईएमडी समायोजित करने के उपरान्त) का 25% तुरन्त अर्थात उसी दिन किन्तु अधिकतम अगले कार्यदिवस तक जैसा मामला हो, जमा करना होगा और शेष 75% राशि बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर करनी होगी। उपर्युक्त के अनुसार बिक्री मूल्य जम करने में असफल रहने पर ईएमडी सहित समस्त राशि बिना किसी सुचना के जब्त कर ली जायेगी। हालाँकि अपवादित स्थितियों में शेष 75% राशि जमा करने के लिए तिथि का उचित विस्तार अधिकृत प्राधिकारी के विवेकाधिकार तथा कानून के प्रयोज्य प्रावधानों के अनुसार क्रेता तथा प्रतिभूत लेनदार के बीच लिखित में सहमति नियम एवं शर्तों के अधीन किया जा सकता है।
- 7. इच्छुक संविदाकार अपने ईएमडी विवरण तथा दस्तावेज वेबपोर्टल www.bankeauctions.com पर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड के माध्यम से

पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तेथि 16.9.2020 धारा 13(2) के अंतर्गत जारी कर ऋणधारक/गारन्टर मै. स्विफ्ट हैंडिक्राफ्ट्स,	Company has only one reportable business segment as per the requirements of Ind AS 108 "Operation of the action of	ng Segment" namely Auto components for	गे। ईएमडी ' ओमकारा ट्रस्ट–पीस 14/2017–18' के पक्ष में मुम्बई में देय डिमॉड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम होगी। बैंक खाता विवरण निम्नलिखित है : ईएमडी निम्नलिखित खाता : 50439307034, लाभार्थी का नाम : ओमकारा पीएस 14/2017–
	 transportation industry. Asset-held-for-sale: Company's investment in its joint venture company "SMI Amtek Crankshaft Private Lim 		
पार्टनर्स श्री संगीत यादव, श्री मनमीत यादव, श्रीमती संतोष यादव एवं स्व श्री हजारी लाल यादव	sale' since March 31, 2018 by virtue of Business Transfer Agreement dated 16.04.2018. The transfer could	i not be completed till the date of approval of	नाम : इलाहाबाद बैंक, शाखा नाम : बीकेसी शाखा, आईएफएससी कोड : ALLA0212755 में एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम
(प्रतिनिधि विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा) (ऋणधारक, गारन्टर एवं मार्टगैजर) को उक्त सूचना की	these results for the reasons beyond the control of the management and it is expected to be completed within		होगी। कृपया ध्यान दें कि ईएमडी राशि के रूप में चेक/डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किये जायेंगे। जिन इच्छुक संविदाकारों ने ईएमडी
प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 17.7.2020 को रु. 2,92,23,353.00	Metal Corporation ("NSSMC", the counterparty), has moved an application in NCLAT and sought specific ins given that the LHG Resolution Plan has been set aside by the Hon'ble NCLT. The matter is pending with Hon'bl	INCLAT STATES	5 और लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड क्रियेट करने, डाटा अपलोड करने, संविदा जमा करने, ई–संविदा प्रक्रिया पर प्रशिक्षण प्राप्त करने
(रुपये दो करोड़ बानवे लाख तैईस हजार तीन सौ तिड़ेपन मात्र) के साथ 1.6.2020 से आगे के	8. The spread of COVID-19 pandemic has affected the business operations post the Government of India decl	lared a national lockdown on 25 March 2020. में सहायता च	ाहते हैं वे ई–नीलामी सेवा प्रदाता ''मैसर्स सी1 इण्डिया प्रा.लि. '', दूरभाष हेल्पलाइन : +91–7291981124 / 25 / 26, हेल्पलाइन
ब्याज तथा अनुषांगिक चार्जेज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।	The Company has taken various measures in consonance with Central and State Government advisories to	contain the pandemic, which included closing ई-मेल आईडी	ि : support@bankeauctions.com, श्री जय सिंह, मोबाइल : 7738866326, ई-मेल : jay.singh@c1india.com अथव
ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारन्टर तथा आम	of manufacturing facilities. Post lifting the aforesaid lock down, the Company has carried out a comprehens result from this pandemic) on its business operations, financial assets, contractual obligations and its overa		ा, मोबाइल : 95945 97555, ई−मेल : hareesh.gowda@c1india.com से सम्पर्क करें अथवा सम्पत्ति सम्बन्धी किसी पूछताछ
जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 12 जनवरी दो हजार इक्कीस को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त	external sources of information and application of reasonable estimates. In that context and based on the	e current estimates, the Company does not 🛛 👘 के लिए सम्बद्ध	: अधिकृत प्राधिकारी : सुश्री प्रतीक्षा पटेल (मोबाइल : 9773406175), ई-मेल : Pratiksha.patel@omkaraarc.com से उपर्युक्त
नेयमावली के नियम 8 एवं नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें	foresee any significant incremental risk to the recoverability of its assets, other than those assets which have t to the relaxed guidelines, the Company has now resumed its operations at all its plants. Since the situation		तयी दिवसों पर कार्य घण्टों के दौरान सम्पर्क करें।
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया हे ।	different from the estimates made as at the date of approval of these financial results. The Company will of	ontinue to monitor any financial implications 8. आरक्षित मूल्य	से कम या ईएमडी राशि के बिना संविदाएं स्वीकार नहीं की जायेंगी।
े। विशेष रूप से ऋणधारकों/गारन्टरों तथा आम जनता को एतदुद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां	arising due to the impact of this pandemic on financial and operational performance of the Company and take r 9. On 20th September 2019, the Government of India vide the Taxation Laws (Amendment) Ordinance 2019, in:	serted Section 115BAA in the Income Tax Act 9. et-410 491 14	क्री उच्चतम संविदा राशि कोट करने वाले क्रेता को की जायेगी। इंटर-से बोली अधिकृत प्राधिकारी के पूर्ण विवेकानुसार होगी। हालांकि
नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय	1961, which provides domestic companies an option to pay income tax at reduced rate effective 01st April 2019	9, subject to certain conditions. The Company अधिकृत प्राधि	ाकारी को बिना कोई कारण बताये प्राप्त सभी या किन्हीं निविदाओं/संविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री के
17.7.2020 को रु. 2,92,23,353.00 (रुपये दो करोड़ बानवे लाख तैईस हजार तीन सौ तिड़ेपन	has elected not to exercise the option permitted under Section 115BAA of the Income Tax Act, 1961 and is th for the purpose of tax provision and deferred tax in these Standalone Financial Results.		गेत करने का अधिकार है।
मात्र) के साथ 1.6.2020 से आगे के ब्याज तथा अनुषांगिक चार्जेज के लिये आईडीबीआई बैंक लि.	10. The management has come across certain additional bank accounts with ICICI Bank in the name of Compa		यों को भूमि के क्षेत्रफल, भवन एवं अन्य विवरण की स्वतन्त्र जांच करने का परामर्श दिया जाता है। प्रतिभूत क्रेडिटर प्रतिभूत आस्ति मे
1/6, सत पुआल मित्तल सेन्टर, खेल गाँव मार्ग, सिरी फोर्ड इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110049	matter was immediately enquired with the Bank on 8th October 2020. The above-mentioned enquiry reve received by the Company prior to FY 2008-09 and thus the balance could be related to repayment of dep	ealed the accounts pertain to public deposits किसी त्रुटि/वि	ालोपन/विसंगति/कमी आदि अथवा किसी अनुमति प्रापण आदि अथवा कानून द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण के बकाये के लिए उत्तरदार्य
के चार्ज के अधीन होगा।	payment etc. and there were no movement [except few insignificant transactions] in these accounts since		
बिक्री के लिये अभिप्रेत प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण	towards data migration in FY 2008-09, these bank accounts (& related liability accounts) were omitted to be in past years. Further, all communication / guarterly balance confirmation requests by the company have also no	icluded in the Company's books of account in 11. सम्पत्ति से सं	बंधित किसी पूछताछ या सम्पत्ति अनुसूची के निरीक्षण के लिए इच्छुक व्यक्ति संबद्ध अधिकृत प्राधिकारी सुश्री प्रतीक्षा पटेल (मोबाइल
 हाइपोथेकेटेड परिसम्पत्तियाँ– कच्चे माल, प्रक्रिया में स्टॉक, तैयार एवं अर्ध–निर्मित सामग्रियों, 	years and could not be identified any sooner. Balance existing in these accounts as on March 31, 2020 aggre	egating to Rs. 18.78 Lakhs, which came to the 977340617	5), ई-मेल : Pratiksha.patel@omkaraarc.com से या उपर्युक्त पते पर कार्यकारी दिवसों में कार्यालयी घंटों के दौरान सम्पर्क
स्टोर एवं स्पेयर, पीएंडएम तथा अन्य चल परिसम्पत्तियों एवं कम्पनी मै. स्विफ्ट हैंडिक्राफ्ट्स	notice of management on 8th October 2020, have been recorded in the books of account as on March 31 Financial Liabilities" in the interim while the management is in the process of reconciling the corresponding de	a service set of a large stand of the service of the LUCA Co-	
की वर्तमान एवं भविष्य के बुक डेब्ट्स का हाइपोथेकेशन।	the ensuing year) for the applicable compliances, including depositing the captioned amount with Investo	r Protection Fund, along with consequential	। को ई–नीलामी असफल होने की दशा में कानून के अनुसार निजी सन्धि द्वारा सम्पत्ति के विक्रय का अधिकार है।
2. गिरवी परिसम्पत्तियाँ	penalty etc. The management has also taken up a detailed exercise with all its existing bankers, to ensure that bank accounts in the name of company and the outcome of such exercise is pending on the date of approval of	these moulte	धेकारी/प्रतिभूत क्रेडिटर कथित बिक्री उद्घोषणा में किसी त्रुटि, अशुद्धि या विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
क) दिल्ली राज्य में दक्षिण दिल्ली की नगर सीमाओं के भीतर स्थित श्रीमती संतोष यादव के नाम में	11. The Vice Chairman and Managing Director of the Company was reappointed by the shareholders in the extra d		वीएंस चार्ज, अप्रदत्त विद्युत चार्ज, निगम/स्थानीय करों, स्टैम्प शुल्क तथा पंजीकरण प्रभारों सहित समस्त शुल्क, प्रभार, कर आदि केवल
सम्पत्ति सं. डीडीए डुप्लेक्स एसएफएस फ्लैट नं. 157, कैटगरी-III, डुप्लेक्स दूसरा एवं तीसरा	period of two years effective from August 14, 2016. The Company based upon the legal opinion is of the view	v that for the purpose of the calculation of the क्रिता द्वारा वह	हन किया जायेगा।
तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 में स्थित अचल सम्पत्ति के भाग में शामिल भूमि का सभी	minimum remuneration effective capital of the Company prescribed as per provisions of Schedule V of the l latest available audited financial statements at the date of meeting which was March 31, 2016 and same would		, पालन : सभी संविदाकार प्रस्ताव/संविदा पत्र के साथ प्रयोज्य आवास प्रमाण सहित पहचान के प्रमाण जैसे मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग
भाग तथा हिस्सा जिसकी चौहदी इस प्रकार है: पूर्व: खुला/सर्विस लेन एवं पार्क, पश्चिम:	remuneration as per provisions of Schedule V of the Companies Act, 2013 for the year ended March 31, 20	18. The Company has accordingly calculated लाइसेंस आणि	दे की सत्यापित फोटोकॉपी और कम्पनी, फर्म आदि के मामले में उचित समाधान तथा प्राधिकार पत्र जमा करने होंगे।
खुला/रोड, दक्षिणः अन्य फ्लैट, उत्तरः प्रवेश/सीढ़ियां/फ्लैट नं. 158 तथा वर्तमान एवं भविष्य में	excess remuneration of Vice Chairman and Managing Director of the Company during the period from April 1, Vice Chairman and Managing Director of the Company has resigned during the (previous) financial year 201		प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के तहत बिक्री हेतु विधिक सूचना
उस पर सभी भवनों तथा स्टुक्चरों तथा वहां की भूमि से जुड़ी अथवा स्थाई प्रकृति की प्लान्ट	paid/ charged to the statement of profit and loss account for the above-mentioned period could not be recov		ते हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण
एवं मशीनरी	year 2017-18. (ii) Subsequent to the aforesaid, in the current financial year, the Company has adjusted the abo	ive-stated excess remuneration from the vice	तहत लागत तथा व्ययों सहित यहाँ ऊपर वर्णित के अनुसार बकाया देयताओं को अदा करके यदि उनके द्वारा वांछित हो तो आस्तिय
ख) देल्ली राज्य में दक्षिण दिल्ली की नगर सीमाओं के भीतर स्थित स्व. श्री एच.एल. यादव, श्रीमती	Chairman and Managing Director against reimbursement of expenses. (iii) For the aforesaid time being de remuneration, the Company will seek approval from the Ministry of Corporate Affairs for condonation, with con-		राश्त सागत तथा व्यया साहत यहा अपर वागत के जुपुसर वयगया देवताजा का जदा करके वाद उपके द्वारा वाहित हो ता जास्तिव रामर्श देने के साथ उपर्युक्त सन्दर्भित तिथि एवं समय तक ई−नीलाम के माध्यम से नीलामी/बिक्री करने की सूचना देते हुए उपर्युक्त
संतोष यादव, श्री संगीत यादव एवं श्री मनमीत यादव के नाम में सम्पत्ति दुकान सं. 12, 1ला	any as per provisions of Companies Act, 2013. However in the absence of exact quantum of penalty and co	impounding fees, no adjustments for excess	6 6 ×
तल, सीएससी कॉम्प्लैक्स, हौज खास, दिल्ली-110016 में स्थित अचल सम्पत्ति के भाग में	remuneration paid and provision for penalty and compounding fees have been made in the financials of prev shall be accounted in the year when the same is determined by the Ministry of Corporate Affairs.		र्जदार/जमानतियों के लिए 30 (तीस) दिन की अनिवार्य सूचना भी है। भुगतान में चूक करने की स्थिति में अधिकृत प्राधिकारी/प्रतिभूत
शामिल भूमि का सभी भाग तथा हिस्सा जिसकी चौहदी इस प्रकार हैः पूर्वः कार्यालय में स्थान	12. The figures for the guarter ended March 31, 2020 and March 31, 2019 are the balancing figures between the	audited tidures in respect of full tinancial year. I	गधिकार पर प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(5) के तहत निर्धारित किसी भी माध्यम से सम्पत्ति की बिक्री कर दी
सं. 13, पश्चिमः खुला, उत्तरः खुला, दक्षिणः खुला तथा वर्तमान एवं भविष्य में उस पर सभी	and published year to date figures up to third quarter of the relevant financial year, which were subject to limited	d review by the statutory auditors. जायेगी।	
भवनों तथा स्ट्रक्चरों तथा वहां की भूमि से जुड़ी अथवा स्थाई प्रकृति की प्लान्ट एवं मशीनरी		For Amtek Auto Limited	ह./-
तेथिः 12.1.2020 प्राधिकृत अधिकारी	Sd/-	Sd/- तिथि: 17.01.202	21 अधिकृत प्राधिकारी, ओमकारा एसेट्स रीकंस्ट्रवशन प्रा. लि
स्थानः नई दिल्ली आईडीबीआई बैंक लि.	Place: New Delhi (Vinod Uppal)	(Dinkar T. Venkatasubramanian) स्थानः मुम्बई	(ओमकारा पीएस 14/2017-18 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत)
କାର, ଏହି । ଏହି ଏହି ।	Date: 15.01.2021 Chief Financial Officer	Insolvency Resolution	